



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No. 178]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

सा.का.नि. 203(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, के इंजीनियरिंग काडर में समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**— पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:** भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अधिवर्षिता:**— ऐसे अधिकारी जो उप महानिरीक्षक (इंजीनियर) का रैंक धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वे साठ वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराहन में सेवा से सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे अधिकारी जो सहायक सेनानी (इंजीनियर), उप सेनानी (इंजीनियर) और सेनानी (इंजीनियर) का रैंक धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वे सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे:

परन्तु यह कि वह व्यक्ति, जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, यथस्थिति, साठ वर्ष या सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर विहित सेवानिवृत्ति आयु के परे सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा।

5. सेवा की अन्य शर्तें:— (1) सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के संबंध में समय समय पर यथा संशोधित, जो इन नियमों में विशिष्टतया उपबंधित नहीं हैं, काडर में नियुक्त किए गए व्यक्ति भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम 1994, के अधीन होंगे।

(2) अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए व्यक्ति योद्धक पद के लिए विहित वर्दी पहनेंगे जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए शीघ्र यथाविहित उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6. निरर्हता:— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता:— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के चिकित्सा देख-रेख पद्धति में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I में हैं, प्रोन्नति और नियुक्ति जिसके अन्तर्गत इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे।

8. शिथिल करने की शक्ति:— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. गैर भारतीय नागरिकों की अपात्रता:— वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बल में नेपाल या भूटान की प्रजा को नियुक्ति या नियोजन में मना नहीं किया जाएगा।

10. व्यावृत्ति:— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अवयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप महानिरीक्षक (इंजीनियर)	06* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 13क (131100-216600 रु.)	चयन पद।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	केवल पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13(123100-215900) में ऐसे सेनानी (इंजीनियर) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में समूह 'क' में कुल बीस वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरी या समतुल्य में डिग्री है और जिन्होंने विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

ऐसे अधिकारी जो सैन्य इंजीनियरिंग सेवा या केंद्रीय या संघ राज्य क्षेत्र या राज्य लोक निर्माण विभाग या जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100-215900 रु.) में दो वर्ष की सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य है।

टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति के पश्चात पुनर्नियोजन द्वारा :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और उपरोक्त विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण — पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन द्वारा:

उन अधिकारियों में से—

- (i) जो सेना या वायु सेना या नौसेना में इंजीनियर कोर में ब्रिगेडियर या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जो सेना या वायु सेना या नौसेना में इंजीनियर कोर में कर्नल या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं और जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में दो वर्ष और समूह 'क' में कुल बीस वर्ष सेवा की है।

टिप्पण — पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं।

(1) विशेष सचिव, गृह मंत्रालय		— अध्यक्ष;		
(2) महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल		— सदस्य;		
(3) किसी अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का महानिदेशक		— सदस्य;		
(4) संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय		— सदस्य।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सेनानी (इंजीनियर)	15* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 13 (123100—215900 रु.)	चयन पद।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	केवल पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हों सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700—208700) में ऐसे उप सेनानी (इंजीनियर), जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ समूह 'क' में कुल पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरी या समतुल्य में डिग्री है और जिन्होंने विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

सेना के इंजीनियर कोर में ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल या सैन्य इंजीनियरिंग सेवा या केंद्रीय या संघ राज्य क्षेत्र या राज्य लोक निर्माण विभाग या जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800—209200 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति के पश्चात पुनर्नियोजन द्वारा :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और उपरोक्त विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण — पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)				(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-				लागू नहीं।
(1) अपर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;				
(2) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य;				
(3) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;				
(4) उप महानिरीक्षक (इंजीनियर), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. उप सेनानी (इंजीनियर)	28* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर-11 (67700-208700 रु.)	चयन पद।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	केवल पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा।
(11)				
<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500) में ऐसे सहायक सेनानी (इंजीनियर), जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा :</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने केंद्रीय या संघ राज्य क्षेत्र या राज्य लोक निर्माण विभाग या जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधीन सद्दश या समतुल्य पद धारण किया हुआ है; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु0) में पाँच वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है।</p> <p>टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>पुनर्नियोजन के पश्चात पुनर्नियोजन द्वारा :</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और उपरोक्त विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण — पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>				
(12)				(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-				लागू नहीं।
1. अपर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;				
2. महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;				

3. उप महानिरीक्षक (इंजीनियर), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;	
4. निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. उप सेनानी (वास्तुविद)	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर-11 (67700-208700 रु.)	लागू नहीं।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विभाग या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों के ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु0) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव धारण करते हों; अर्थात्:—

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वास्तुविद की डिग्री धारण की हो जो कि वास्तुविद अधिनियम 1972 के अधीन वास्तुविद परिषद में रजिस्ट्रीकृत हो।

(ii) वास्तुविद योजना में सात वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सहायक सेनानी (इंजीनियर)	62* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं।

(6)

30 वर्ष से अधिक न हो

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,

जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री।

शारीरिक और चिकित्सीय मानक:

(i) पुरुष के लिए:	(ii) महिला के लिए:
ऊँचाई : 165 सेन्टीमीटर	ऊँचाई : 157 सेन्टीमीटर
छाती : 81 सेन्टीमीटर (बिना फुलाये)	छाती : लागू नहीं।
: 86 सेन्टीमीटर (फुलाने पर)	वजन : ऊँचाई के अनुपात में
वजन : 50 किलोग्राम।	
दृष्टि : (चश्मे सहित या उसके बिना)	दृष्टि : (चश्मे सहित या उसके बिना)
दूर दृष्टि: एक आँख की 6/6 दूसरी आँख की 6/9	दूर दृष्टि: एक आँख की 6/6, दूसरी आँख की 6/9
निकट दृष्टि: एक आँख की 0.6 और दूसरी आँख की 0.8	निकट दृष्टि: एक आँख की 0.6 और दूसरी आँख की 0.8

अभ्यर्थियों को संहत अन्तर्जानु, और चपटे पैर वाला नहीं होना चाहिए।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	प्रोन्नति और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनः-नियोजन। 50% सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा:

भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 ₹0) में ऐसे निरीक्षक(ओवरसियर) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केंद्रीय या संघ राज्य क्षेत्र या राज्य लोक निर्माण विभाग या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है।

टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति के पश्चात पुनर्नियोजन द्वारा :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और उपरोक्त विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; 2. महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; 3. उप महानिरीक्षक(इंजीनियर), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; 4. निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य। 	<p>लागू नहीं।</p>

[फा. सं. I.12012/19/2016—संगठन]

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

G.S.R. 203(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre, (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' posts in Engineering Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre, Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc..— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Superannuation.— Officers holding the rank of Deputy Inspector General (Engineer) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years and officers holding the rank of Assistant Commandant (Engineer), Deputy Commandant (Engineer) and Commandant (Engineer) shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty- seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation i.e. sixty years or fifty seven years, as the case may be.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

5. Other condition of service.— (1) The persons appointed to the Cadre shall subject to the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 and Indo-Tibetan Border Police Force Rules 1994, as amended from time to time in respect of other conditions of service not specifically provided for in these rules.

(2) The persons appointed on deputation from other departments shall have to wear the uniform prescribed for the combatised post against which they are appointed and have to undergo basic training as may be prescribed immediately on appointment on deputation.

6. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Medical Fitness.— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for promotion and appointment including appointment on deputation or re-employment under the provisions of these rules.

8. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

9. Ineligibility of non-citizens of India.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

10. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Inspector General (Engineer)	6* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 13A (Rs.131100 - 216600)	Selection post.	Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promtees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable.	Not applicable.	Two years for re-employment only.	By promotion failing which by deputation For Ex-servicemen Deputation/re-employment.		

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

By Promotion:

From amongst Commandant (Engineer) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) with two years regular service in the grade with total twenty years Group 'A' regular service in the Indo-Tibetan Border Police Force and having degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised university or institution and having successfully completed the prescribed pre-promotional course.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers holding analogous post or with two years service in post in level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or with six years regular service in post in level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) in Military Engineering Service or Central or Union Territories or State Public Works Department or General Reserve Engineering Force or in Central Armed Police Forces and having degree in Civil Engineering or equivalent.

Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion should not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. (Period of deputation including of deputation another Ex-Cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age-limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-six years on the date of receipt of application.

Deputation followed by re-employment :

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed above shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age-limit for eligibility for re-employment shall not be exceeding fifty-six years on the date of receipt of application.

By re-employment of Ex-servicemen:

From amongst officers, —

- (i) who have held the rank of Brigadier or equivalent in the Corps of Engineers in the Army or Air Force or Navy; or
- (ii) who have held the rank of Colonel or equivalent in the Corps of Engineers in the Army or Air Force or Navy with minimum two years service in level in the pay matrix and total twenty years group 'A' service.

Note: The maximum age-limit for eligibility for re-employment shall not be exceeding fifty-six years on the date of receipt of application.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?				Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)				(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- (1) Special Secretary, Ministry of Home Affairs - Chairman; (2) Director General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member; (3) Director General of any other Central Armed Police Forces - Member; (4) Joint Secretary (Police), Ministry of Home Affairs. - Member.				Not applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Commandant (Engineer)	15* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 13 (Rs.123100 - 215900)	Selection post.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two year for re-employment only.	By promotion failing which by deputation for Ex-servicemen deputation/re-employment.

(11)
<p>By Promotion:</p> <p>From amongst Deputy Commandant (Engineer) of Indo-Tibetan Border Police in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with ten years regular service in the grade with total fifteen years Group 'A' service and having degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised university or institution and having successfully completed the prescribed pre-promotional course.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation:</p> <p>Lieutenant Colonel of the Corps of Engineers from the Army or Officers holding analogous post on a regular basis or with five years regular service in post in level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) in Military Engineering Service or Central or Union Territories or State Public Works Departments or General Reserve Engineering Force or Central Armed Police Forces and having degree in Civil Engineering.</p> <p>Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion should not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. (Period of deputation including of deputation another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.</p>

Deputation followed by re-employment:

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed above shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall not be exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

(12)				(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- (1) Addl. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman; (2) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member; (3) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member; (4) Deputy Inspector General (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.				Not applicable
(1)	(2)	(3)	(4)	
3. Deputy Commandant (Engineer)	28* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 11 (Rs. 67700 - 208700)	
(6)	(7)	(8)	(9)	
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	Two years for re-employment only.	
				(10)
				By promotion failing which by deputation or re-employment.
(11)				

By Promotion:

From amongst Assistant Commandant (Engineer) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional course.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers holding analogous or equivalent post or with five years service in post in level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) under the Central or Union Territories or State Public Works Departments or General Reserve Engineering Force or Central Armed Police Forces and having Degree in Civil Engineering.

Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion should not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. (Period of deputation including of deputation another Ex-Cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the date of receipt of application.

Deputation followed by re-employment:

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed above for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

(12)				(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-				Not applicable.
(1) Addl Director General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman;				
(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member;				
(3) Deputy Inspector General (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force - Member;				
(4) Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Deputy Commandant (Architect)	1* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 11 (Rs.67700 - 208700)	Not applicable.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation including short-term contract.
(11)				
By Deputation (including short-term contract):				
Officers of Central or State Government or Union Territories Government Departments or Statutory Organisations or Public Sector Under Takings or recognised Universities and Research Organisations:				
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or				
(ii) with five years regular service in level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500); and				
(b) possessing the following Educational qualification and experience, namely:				
(i) Bachelors Degree in Architecture from a recognized University or Institution which is registered with Council of Architecture under Architecture Act 1972,				
(ii) having Seven years experience in Architectural Planning.				
Note: The period of deputation including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years on the closing date of receipt of application.				
(12)			(13)	
Not applicable.			Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Assistant Commandant (Engineer)	62* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 10 (Rs. 56100 - 177500)	Not applicable.
(6)				
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).				
(7)				
Bachelors Degree in Civil Engineering from a recognized university or Institute.				
Physical Standard :				
(i) For male: Height : 165 centimeters Chest : 81 centimeters (Unexpanded) 86 centimeters (Expanded) Weight: 50 Kgs. Eyesight (with or without glasses) Distant vision : 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision : 0.6 in one eye and 0.8 in other eye.		(ii) For female: Height : 157 centimeters Chest : Not applicable. Weight : Proportionate to height. Eyesight (with or without glasses) Distant vision : 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision : 0.6 in one eye and 0.8 in other eye.		
Candidates should not have knock-knees and flat foot.				
(8)	(9)	(10)		
Not applicable.	Two years for promotees and direct recruits.	50% by promotion failing which by deputation. For Ex-serviceman: deputation/ re-employment. 50% by direct recruitment.		
(11)				
By Promotion: From amongst Inspector (Overseer) of Indo-Tibetan Border Police in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional course. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.				

By Deputation:

From amongst officers of the Central or Union Territories or State Public Works Departments or Central Armed Police Forces holding analogous post on regular basis and having Degree in Civil Engineering.

Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion should not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. (Period of deputation including of deputation another Ex-Cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for eligibility for deputation shall be fifty-two years on the date of receipt of application.

Deputation followed by re-employment:

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed above for deputation shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall not be exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Addl. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman;</p> <p>(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member;</p> <p>(3) Deputy Inspector General (Engineer), - Member;</p> <p style="padding-left: 40px;">Indo-Tibetan Border Police Force.</p> <p>(4) Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member.</p>	Not applicable.

[F. No. I. 12012/19/2016-Org.]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.